



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2017/वैशाख 28, 1939

No. 385]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2017/ VAISAKHA 28, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

सा.का.नि. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (पंचम संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।
2. भारतीय तार नियम, 1951 में—
(i) नियम 525 के उपनियम (2), खंड (v) में, मद संख्या (झ) के पश्चात् निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा।
अर्थात्—
“मुख्य भूमि (चेन्नई) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के पनडुब्बी ऑफिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान हेतु पूँजीगत व्यय का वहन परियोजना निष्पादन एजेंसी के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जिसे सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा”।
- (ii) उक्त नियमों के नियम 526 में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों “खंड (v) की मद (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ)” के स्थान पर “खंड (v) की मद (क), (ख), (ग), (घ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ) और (ঝ)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर रखा जाएगा।

[फा. सं. 30-174-1/2015-यूएसओएफ-वीबी(खंड VI)]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

टिप्पणि: मुख्य नियम डाक एवं तार पुस्तिका खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग-2, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे:-

1.	सा.का.नि. 190, दिनांक 18 फरवरी, 1984	37.	सा.का.नि. 865, दिनांक 29 सितम्बर, 1989
2.	सा.का.नि. 386, दिनांक 22 मई, 1984	38.	सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 29 मार्च, 1990
3.	सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22 मई, 1984	39.	सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 15 जून, 1990
4.	सा.का.नि. 679, दिनांक 30 जून, 1984	40.	सा.का.नि. 933(अ), दिनांक 03 दिसम्बर, 1990
5.	सा.का.नि. 428, दिनांक 27 अप्रैल, 1985	41.	सा.का.नि. 985(अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 1990
6.	सा.का.नि. 729, दिनांक 03 अगस्त, 1985	42.	सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1991
7.	सा.का.नि. 982, दिनांक 19 अक्टूबर, 1986	43.	सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 1991
8.	सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 27 मार्च, 1986	44.	सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 02 मई, 1991
9.	सा.का.नि. 314, दिनांक 26 अप्रैल, 1986	45.	सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 21 मई, 1992
10.	सा.का.नि. 566, दिनांक 26 जुलाई, 1986	46.	सा.का.नि. 560(अ), दिनांक 26 मई, 1992
11.	सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1986	47.	सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 10 जून, 1992
12.	सा.का.नि. 1121(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 1986	48.	सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1992
13.	सा.का.नि. 1167(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1986	49.	सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1992
14.	सा.का.नि. 1237(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 1986	50.	सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1993
15.	सा.का.नि. 49, दिनांक 17 जनवरी, 1987	51.	सा.का.नि. 80, दिनांक 06 फरवरी, 1993
16.	सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1987	52.	सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 1993
17.	सा.का.नि. 377(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 1987	53.	सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 1993
18.	सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27 जुलाई, 1987	54.	सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 26 मार्च, 2004
19.	सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1987	55.	सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2006
20.	सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 1987	56.	सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 01 मार्च, 2007
21.	सा.का.नि. 989(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1987	57.	सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2008
22.	सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 11 मार्च, 1988	58.	सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2010
23.	सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 21 मार्च, 1988	59.	सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010
24.	सा.का.नि. 626(अ), दिनांक 17 मई, 1988	60.	सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 27 मार्च, 2012
25.	सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 31 मई, 1988	61.	सा.का.नि. 412(अ), दिनांक 29 मई, 2012
26.	सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 10 जून, 1988	62.	सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 07 जून, 2013
27.	सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 24 जून, 1988	63.	सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2013
28.	सा.का.नि. 606, दिनांक 14 जुलाई, 1988	64.	सा.का.नि. 18, दिनांक 28 जनवरी, 2014
29.	सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1988	65.	सा.का.नि. 912(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2015
30.	सा.का.नि. 888(अ), दिनांक 01 सितम्बर, 1988	66.	सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2015
31.	सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 07 सितम्बर, 1988	67.	सा.का.नि. 241, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015
32.	सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 09 सितम्बर, 1988	68.	सा.का.नि. 238(अ), दिनांक 28 मार्च, 2017
33.	सा.का.नि. 1054, दिनांक 2 नवम्बर, 1988	69.	सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 31 मार्च, 2017
34.	सा.का.नि. 179, दिनांक 18 मार्च, 1989	70.	सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2017
35.	सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 15 मार्च, 1989	71.	सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 02 मई, 2017
36.	सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 15 जून, 1989		

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2017

G.S.R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fifth Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951,—
 - (i) in rule 525, in sub-rule (2), in clause (v), after item (i), the following item shall be inserted, namely:—

"(j) For provision of Submarine Optical Fibre Cable connectivity between Mainland India (Chennai) and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited as Project Execution Agency shall be funded by the Universal Service Obligation Fund.";
 - (ii) in rule 526, for the words, brackets and letters "items (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of clause (v)", the words, brackets and letters "items (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) and (j) of clause (v)" shall be substituted.

[F. No. 30-174-1/2015-USOF-BB(Vol.VI)]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin)

Note : The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers:—

- | | |
|--|---|
| 1. G.S.R. 190, dated the 18 th February, 1984; | 16. G.S.R. 112(E), dated the 25 th February, 1987; |
| 2. G.S.R. 386, dated the 22 nd May, 1984; | 17. G.S.R. 377(E), dated the 9 th April, 1987; |
| 3. G.S.R. 387(E), dated the 22 nd May, 1984; | 18. G.S.R. 674(E), dated the 27 th July, 1987; |
| 4. G.S.R. 679, dated the 30 th June, 1984; | 19. G.S.R. 719(E), dated the 18th August, 1987; |
| 5. G.S.R. 428, dated the 27 th April, 1985; | 20. G.S.R. 837(E), dated the 5 th October, 1987; |
| 6. G.S.R. 729, dated the 3 rd August, 1985; | 21. G.S.R. 989(E), dated the 17 th December, 1987; |
| 7. G.S.R. 982, dated the 19 th October, 1986; | 22. G.S.R. 337(E), dated the 11 th March, 1988; |
| 8. G.S.R. 553(E), dated the 27 th March, 1986; | 23. G.S.R. 361(E), dated the 21 st March, 1988; |
| 9. G.S.R. 314, dated the 26 th April, 1986; | 24. G.S.R. 626(E), dated the 17 th May, 1988; |
| 10. G.S.R. 566, dated the 26 th July, 1986; | 25. G.S.R. 660(E), dated the 31 st May, 1988; |
| 11. G.S.R. 953(E), dated the 23 rd July, 1986; | 26. G.S.R. 693(E), dated the 10 th June, 1988; |
| 12. G.S.R. 1121(E), dated the 1 st October, 1986; | 27. G.S.R. 734(E), dated the 24 th June, 1988; |
| 13. G.S.R. 1167(E), dated the 28 th October, 1986; | 28. G.S.R. 606, dated the 14 th July, 1988; |
| 14. G.S.R. 1237(E), dated the 28 th November, 1986; | 29. G.S.R. 812(E), dated the 26 th July, 1988; |
| 15. G.S.R. 49, dated the 17 th January, 1987; | 30. G.S.R. 888(E), dated the 1 st September, 1988; |

31. G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989;
37. G.S.R. 865, dated the 29th September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990;
39. G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990;
40. G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990;
41. G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990;
42. G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991;
43. G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991;
44. G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991;
45. G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992;
46. G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992;
47. G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992;
48. G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992;
49. G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992;
50. G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993;
51. G.S.R. 80, dated the 6th February, 1993;
52. G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993;
53. G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993;
54. G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004;
55. G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006;
56. G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007;
57. G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008;
58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;
59. G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010;
60. G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012;
61. G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012;
62. G.S.R. 368(E) dated the 07th June, 2013;
63. G.S.R. 506(E) dated the 24th July, 2013;
64. G.S.R. 18 dated the 28th January, 2014;
65. G.S.R. 912(E) dated the 23rd December, 2014;
66. G.S.R. 653(E) dated the 25th August, 2015;
67. G.S.R. 241 dated the 10th December, 2015;
68. G.S.R. 238(E) dated the 28th March, 2017;
69. G.S.R. 341(E) dated the 31st March, 2017;
70. G.S.R. 406(E) dated the 20th April, 2017; and
71. G.S.R. 439(E) dated the 2nd May, 2017